



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 माघ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 115) पटना, शुक्रवार, 8 फरवरी 2013

---

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी 2013

सं0 निग/सारा-4-(पथ) आरोप-107/10-106 (एस)—श्री इमतियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल रामनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मुंगेर द्वारा पथ प्रमंडल रामनगर के अंतर्गत रामनगर बाजार से लौरिया के बीच कराये गये पी0सी0सी0 कार्य में बरती गई अनियमितता के लिये आरोप प्रपत्र "क" गठित कर संकल्प ज्ञापांक-801 (एस) अनु0 दिनांक 20.01.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन 976 दिनांक 24.05.2011 द्वारा यद्यपि श्री अहमद के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मन्तव्य दिया, परन्तु संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त उक्त पथ की जाँच उड़नदस्ता प्रमण्डल सं0-4 से करायी गयी एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में पथ की औसत चौड़ाई 5.5 मीटर के स्थान पर 5.42 मीटर पायी गई, फलस्वरूप प्रावधानित चौड़ाई से कम चौड़ाई का कार्य कराये जाने के कारण रुपये 21315.00 की हुई अधिक भुगतान के लिए श्री अहमद से विभागीय पत्रांक-5077 (एस) अनु0 दिनांक 11.05.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री अहमद ने अपने पत्रांक-845 दिनांक 06.06.12 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप से इंकार किया गया।

श्री अहमद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरान्त पाया गया कि इस प्रकरण में किसी प्रकार की वित्तीय क्षति नहीं हुई बल्कि कार्य कराने में तत्परता नहीं बरतने के कारण कराये गये कार्य की औसत चौड़ाई कम तथा औसत मोटाई प्रावधान से अधिक हो गई।

तद्आलोक में कार्य निष्पादन में वरती गई लापरवाही के लिये श्री इमतियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल रामनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मुंगेर को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:—  
(1) निन्दन।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के उप—सचिव (निगरानी)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 115-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>